



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण 1941 (श10)
(सं० पटना 1292) पटना, मंगलवार, 26 नवम्बर 2019

सं०सं०-एम-4-53/2007/9391/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

25 नवम्बर 2019

विषय:-स्कीमों की समीक्षा हेतु स्कीम स्क्रीनिंग समिति के गठन के संबंध में ।

1. वर्तमान में सभी प्रकार के नई निर्माण संबंधी स्कीमों की स्वीकृति के पूर्व उन नई स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की आवश्यक समीक्षा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

2. इस निमित्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में “स्कीम स्क्रीनिंग समिति” का गठन किया जाता है । समिति निम्न रूपेण होगी:-

- | | |
|--|------------|
| (i) विकास आयुक्त- | अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग- | सदस्य |
| (iii) प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग- | सदस्य सचिव |
| (iv) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव- | सदस्य |

3. निम्नांकित विषय से संबंधित स्कीम को उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इनकी समीक्षा एवं स्वीकृति प्राधिकार वही होगी, जो वित्त विभागीय संकल्प 3758, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में पूर्व से वर्णित है ।

- जल जीवन हरियाली मिशन
- मुख्यमंत्री सात निश्चय

- (iii) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना
- (iv) आपदा संबंधित स्कीम
- (v) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम
- (vi) विधि व्यवस्था संबंधित स्कीम

4. उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित विषय संबंधित स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई निर्माण स्कीम जिसकी अनुमानित लागत की राशि जो भी हो, की समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-2 में वर्णित समिति के समक्ष रखे जायेंगे तथा स्क्रीनिंग समिति का अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

5. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त नई निर्माण संबंधित इन स्कीमों की स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में वर्णित है ।

6. जिन स्कीमों के लिए समीक्षी प्राधिकार पूर्व से लोक वित्त समिति निर्धारित है, को उक्त कंडिका-2 में गठित स्क्रीनिंग समिति में रखे जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

7. नई निर्माण से संबंधित स्कीम हेतु उपर्युक्त कंडिका-2 से 6 तक में वर्णित व्यवस्था 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेंगे ।

8. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश से,
डॉ० एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1292-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>